



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2017]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 3, 2009/अग्रहायण 12, 1931

No. 2017]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 3, 2009/AGRAHAYANA 12, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2009

का.आ. 3089(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1711(अ), तारीख 13 जुलाई, 2009, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के सेलम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के 0.000 से 39.800 कि. मी., 43.000 कि.मी. से 45.800 कि.मी. और 49.900 कि.मी. से 50.800 कि.मी. (सेलम-कोयम्बटूर सेक्शन) तक के भू-खण्ड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 18 अगस्त, 2009 को "दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस" और "दिना थाँथी" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और उन पर विचार कर लिया है और उन्हें अननुज्ञात कर दिया गया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के 0/000 कि. मी. से 39/800 कि. मी., 43/000 कि. मी. से 45/800 कि. मी. और 49/900 कि. मी. से 50/800 कि. मी. (सेलम - कोयमबटूर सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का सक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
				उप संडल के पहले	उप मंडल के बाद				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	सेलम	1.सेलम	(1) नल्लारायमपट्टी (नगर निगम सीमा)	13/16ए भाग	13/16ए1	निजी	शुष्क	10.00	मुथुगाउंडर पुत्र रामासामी गाउंडर
				15/1ए1	15/1ए1बी	निजी	शुष्क	66.00	1.पेरीया गाउंडर पुत्र पेरिया गाउंडर
									2. शिवाबाक्कीयम पत्नी राजशेखर
									3. सन्थिलकुमार पुत्र राजशेखरन
									4. रेक्थी पुत्री राजशेखरन
									5. पकुरधिन पुत्र सकुल हमीद
									6.थिरुवालीगाउंडर पुत्र कन्दासामी
				35/2	35/2	निजी	शुष्क	62.00	राधामनी पत्नी नटराजन
		2. संकरी	(1) वरहगुंधम	249/5ए	249/5ए2	निजी	शुष्क	96.00	1. जगदीशन पुत्र मुथुसामी
									2. मुथुलक्ष्मी पत्नी कुमारसामी
									3. राजा पुत्र पलानिप्पान
									4. चित्रा पत्नी राजा
				249/5बी1	249/5बी1बी	निजी	मनाई	135.00	चिन्नापिल्लै पुत्र कन्दासामी
				249/5सी2ए	249/5सी2ए	निजी	मनाई	11.00	कन्दासामी पुत्र नाल्ताया गाउंडर
				256/1	256/1ए	निजी	शुष्क	220.00	वेंगा गाउंडर
				256/5	256/5ए	निजी	शुष्क	63.00	1.पेरुमल
									2. पलानिप्पन के पुत्र कन्दासामी
				259/5सी2	259/5सी2ए	निजी	शुष्क	31.00	म्मेरीप्पान पुत्र वेंगा गाउंडर
			(2)इरनापुरम	259/2ए1सी1	259/7	नाथम	मनाई	60.00	1.सुर्याकान्दाम पिल्लै पुत्र वैक्टाचलम
									2. अरुणाचलम
									3.उथामान के पुत्र सुर्याकान्दाम पिल्लै
				268/34सी	268/34सी2	नाथम	मनाई	4.00	अरुमुगम पुत्र सिद्धान पान्यन्दी
				268/341	268/341बी	नाथम	मनाई	6.00	अरुमुगम पुत्र सिद्धान पान्यन्दी

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				268/35बी	268/35बी2	नाथम	मनाई	3.00	लक्ष्मी पत्नी अरुमुगम
				268/35सी	268/35सी	नाथम	मनाई	4.50	अरुमुगम पुत्र सिद्धान पान्यन्दी
				268/351	268/351	नाथम	मनाई	4.50	अरुमुगम पुत्र सिद्धान पान्यन्दी
			(3) दवनगोंडानूर	651/2एफ भाग	651/2एफ भाग	निजी	शुष्क	271.29	1. सेमालाई गाउंडर पुत्र काली गाउंडर 2. ईश्वरमुर्ति पुत्र नटचिमुथु
				651/2जी भाग	651/2जी भाग	निजी	शुष्क	1144.41	ईश्वरमुर्ति पुत्र नटचिमुथु
			(4) चिन्नागोंडानूर	298/1ए2	298/1ए2	निजी	शुष्क	650.00	1. कुप्पागाउंडर
									2. सेनगोदा गाउंडर
									3. नटेशन पुत्र माराप्पा गाउंडर
									4. सेल्लाप्पा गाउंडर
									5. रामासामी गाउंडर
									6. करुप्पान्नान पुत्र सेनगोदा गाउंडर
			(5) अग्रहर थलईयूर	161/7ए भाग	161/7ए भाग	निजी	शुष्क	181.50	1.पेरुमाई पत्नी पेरीयासामी
									2. वैक्टाचलम पुत्र पेरीयासामी
									3. सारासु पुत्री सेनगोदान
									4. तमिलरासन पुत्र सेनगोदान
									5. वैक्टेसन पुत्र सेगोदान
				163/9बी भाग	163/9बी भाग	निजी	नम	469.90	1. अनाई गाउंडर
									2. अन्नामलाई
						3. पेरुमल			
						4.अरुमुगम के पुत्र कावेरी गाउंडर			
(6) अईवेली	12/7ए	12/7ए	निजी	शुष्क	1012.00	1. प्पोन्नायाल पुत्र रामासामी			
						2. स्सोमपोरानाम पत्नी नटराज			
						3. अरुमुगम पुत्र नटराजन			

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2009

S.O. 3089(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number SO.1711(E), dated the 13th July, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four – laning, etc), maintenance, management and operation of National Highway No.47 on the stretch of land from Km. 0.000 to km.39.800, km.43.000 to km.45.800 and km.49.900 to km.50.800 (Salem - Coimbatore section) in District Salem, in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the ~~said~~ notification has been published in “The New Indian Express” and Dhina Thanthi, both dated the 18th August, 2009, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 0/000 to Km.39/800, 43/000 to 45/800 and 49/900 to 50/800 (Salem - Coimbatore Section) on the National Highways No.47 in the State of Tamil Nadu

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey Number		Type of land	Nature of land	Area (in square meters)	Name of the land owner / Interested persons
				Before sub-division	After sub-division				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Salem	1. Salem	(1) Nallarayyan Patti (Corporation Limit)	13/16A part	13/16A1	Private	Dry	10.00	Muthugounder S/o. Ramasamy gounder
				15/1A1	15/1A1B	Private	Dry	66.00	Periya gounder S/o. Periya gounder (1) Sivabakkiyam W/o. Rajasekaran (2) Senthilkumar S/o. Rajasekaran (3) Revathi D/o. Rajasekaran (4) Pakurdhin S/o. Sakul Hameed (5) Thiruvalligounder S/o. Kandasamy (6)
				35/2	35/2	Private	Dry	62.00	Radhamani W/o. Natarajan
		2. Sankari	(1) Vaigundham	249/5A	249/5A2	Private	Dry	96.00	Jagadeesan S/o. Muthusamy (1) Muthulakshmi W/o. Kumarasamy (2) Raja S/o. Palaniappan (3) Chitra W/o. Raja (4)
				249/5B1	249/5B1B	Private	Manai	135.00	Chinnapillai W/o. Kandasamy
				249/5C2A	249/5C2A	Private	Manai	11.00	Kandasamy S/o. Nallaiya gounder
				256/1	256/1A	Private	Dry	220.00	Venga gounder
				256/5	256/5A	Private	Dry	63.00	Perumal (1) Palaniappan (2) Sons of Kandasamy
				259/5C2	259/5C2A	Private	Dry	31.00	Mariappan S/o. Venga gounder
			(2) Erunapuram	259/2A1C1	259/7	Natham	Manai	60.00	Suriyakandham pillai S/o. Venkatachalam pillai (1) Arunachalam (2) Uthaman (3) Sons of Suriyakandham pillai
				268/34C	268/34C2	Natham	Manai	4.00	Arumugam S/o. Sidhan panniandi
				268/34D1	268/34D1B	Natham	Manai	6.00	Arumugam S/o. Sidhan panniandi
				268/35B	268/35B2	Natham	Manai	3.00	Lakshmi W/o. Arumugam panniandi
				268/35C	268/35C	Natham	Manai	4.50	Arumugam S/o. Sidhan panniandi
				268/35D1	268/35D1	Natham	Manai	4.50	Arumugam S/o. Sidhan panniandi
			(3) Devana gavundanur	651/2F Part	651/2F Part	Private	Dry	271.29	Sematai gounder S/o. Kali gounder (1) Eswaramoorthi S/o. Natchimuthu (2)
				651/2G Part	651/2G Part	Private	Dry	1144.41	Eswaramoorthi S/o. Natchimuthu

4395 GI/09-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			(4) Chinna goundanur	298/1A2	298/1A2	Private	Dry	650.00	Kuppagounder (1) Sengoda gounder (2) Natesan S/o. Marappa gounder (3) Sellappa gounder (4) Ramasamy gounder (5) Karuppannan S/o. Sengoda gounder (6)
			(5) Agrahara Thalaiyur	161/7A Part	161/7A Part	Private	Dry	181.50	Perumayee W/o. Periyasamy (1) Venkatachalam S/o. Periyasamy (2) Sarasu D/o. Sengodan (3) Tamilarasan S/o. Sengodan (4) Venkatesh S/o. Sengodan (5)
				163/9B Part	163/9B Part	Private	Wet	469.90	Anai gounder (1) Annamalai (2) Perumal (3) Arumugam (4) Sons of Kaveri gounder.
			(6) Aiveli	12/7A	12/7A	Private	Dry	1012.00	Ponnayal W/o. Ramasamy (1) Sampooranam W/o. Nataraj (2) Arumugam S/o. Natarajan (3)

[F. No. NHAI/PIU-Salem/Notif/LA (HQ)-2009]

PRABHAKAR, Dy. Secy.